

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
केंद्रीयकृत काडर अनुभाग/Centralised Cadre Section

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ.शि.म.मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai 400 001.

सं./No. CCS-11011(14)/1/2019-CC-DAE/2760

फरवरी /February 25, 2020

कार्यालय ओदश सं./OFFICE ORDER NO. 02/2020

विषय: सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8) की ग्रेड में पदोन्नतियाँ/तैनातियाँ/स्थानांतरण ।

Subject: Promotion/postings/transfers in the grade of Assistant Personnel Officer (Level-8 of Pay Matrix)

काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8) की ग्रेड में निम्नलिखित पदोन्नतियाँ/तैनातियों/स्थानांतरण का आदेश तत्काल प्रभाव से एतद्वारा दिया जाता है :-

The following promotions/postings/transfers in the grade of Assistant Personnel Officer (Level-8 of Pay Matrix) are hereby ordered by the Cadre Controlling Authority with immediate effect: -

- i) Smt. Sandhya M. Poojary, Assistant (Level-7 of Pay Matrix), BARC, Mumbai is promoted as Assistant Personnel Officer and posted to BARC, Mumbai vice Smt. Sreedevi Venugopalan retired.
- ii) Smt. Anita Ramachandran, APO, AMD, Nagpur is transferred in the same capacity and posted to BARC, Mumbai vice Shri S.D. Udamale retired.
- iii) Smt. Rekha Titre, Assistant (Level-7 of Pay Matrix), DPS, Mumbai is promoted as Assistant Personnel Officer and posted to AMD, Nagpur vice Smt. Anita Ramachandran transferred.
- iv) Smt. Raji S. Nair, Assistant (Level-7 of Pay Matrix), DPS, Mumbai is promoted as Assistant Personnel Officer and posted to VECC, Kolkata vice Shri A. K. Pattra retired.
- v) Smt. Vaibhavi Y. Lad, Assistant (Level-7 of Pay Matrix), DAE, Mumbai is promoted as Assistant Personnel Officer and posted to BARC, Vishakhapatnam vice Shri P. Krishna Kanth transferred vide office order dated 29.08.2019.
- vi) Shri T. Jayaraman, APO, HWP, Talcher is transferred in the same capacity and posted to BARCF, Kalpakkam vice Shri A. G. Sudheendra promoted.
- vii) Shri Pankaj Prasad, Assistant (Level-7 of Pay Matrix), BARC, Mumbai is promoted as Assistant Personnel Officer and posted to HWP, Talcher vice Shri T. Jayaraman transferred.

.....2/-

2. क्र. सं. (i), (iii), (iv), (v) and (vii) के कर्मचारीगण सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे।

Officers at Sl. No. (i), (iii), (iv), (v) and (vii) will be on probation for a period of one year from the date of assumption of charge of the post of Assistant Personnel Officer.

3. पदोन्नति के उपरोक्त आदेश को इसकी जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि में सतर्कता क्लियरेंस की शर्त पर अमल में लाया जाना चाहिए।


The above order of promotion is to be effected within a period of 15 days from the date of issue thereof, subject to vigilance clearance.

4. The transfer of the officers at Sl. No. (ii) & (vi) will be on personal interest. They will not be eligible for transfer T.A. and other benefits.

5. ***The above promotion in r/o Sr. No. (vii) shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 30621/2011 as mentioned in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt (Res-I){Pt-II} dated 15.06.2018.***

6. Further all the officials /officers mentioned above may be relieved **latest by 11.03.2020**, failing which, they will stand relieved/deemed to be relieved from the next working day. Further, if they fail to report after relieving / deemed relieving, they will be treated as absenting from duty unauthorizedly and will be liable for disciplinary action besides non-drawal of salary and allowances.

7. If the transferred officers/promoted officials wish to avail any leave after the above-said date of relief, they have to first report to the unit to which they have been transferred and the leave will have to be invariably sanctioned by the leave sanctioning authority of that unit.


(अशोक बी. गेरीरा/Ashok B. Gerira)
अवर सचिव/Under Secretary

- पऊवि की इकाइयों के सभी प्रधान All Heads of Units of DAE
- पऊवि के सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Units of DAE
- संबंधित कर्मचारी / Officers concerned - उचित माध्यम द्वारा / Through proper channel
- पऊवि के सभी अधिकारी एवं अनुभाग /All Officers and Sections in DAE
- प्रधान, सीआयएसडी, पऊवि, मुंबई - इसे पऊवि की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ / Head, CISD, DAE, Mumbai - with a request to upload on the DAE website